



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 659]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2012/पौष 3, 1934

No. 659]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2012/PAUSA 3, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 926(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत खाता नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के नियम 4क, की सारणी में,-

(क) एकल खाता से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(i) स्तंभ (5) के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन मजदूरी, इन नियमों के अधीन सरकारी फायदे और जमाराशियां”;

(ii) स्तंभ (6) के नीचे प्रविष्टियों में “और मजदूरी पची” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) संयुक्त खाता से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,-

(i) स्तंभ (5) के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन मजदूरी, इन नियमों के अधीन सरकारी फायदे और जमाराशियां”;

(ii) स्तंभ (6) के नीचे “और मजदूरी पची” शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 2/6/2006-एन.एस. II]

आर. के. कर्कर, अवर सचिव

टिप्पण:-मूल नियम सा.का.नि. 663(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और निम्नलिखित संख्यांक द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :-

- (1) सा.का.नि. 8(अ), तारीख 2 जनवरी, 1987;
- (2) सा.का.नि. 948(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 1987;
- (3) सा.का.नि. 5(अ), तारीख 5 जनवरी, 1989;
- (4) सा.का.नि. 430(अ), तारीख 6 अप्रैल, 1989;
- (5) सा.का.नि. 695(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989;
- (6) सा.का.नि. 813(अ), तारीख 4 सितम्बर, 1989;
- (7) सा.का.नि. 1001(अ), तारीख 8 नवम्बर, 1989;
- (8) सा.का.नि. 499(अ), तारीख 8 जुलाई, 1993;
- (9) सा.का.नि. 165(अ), तारीख 28 फरवरी, 2000;

- (10) सा.का.नि. 349(अ), तारीख 10 मई, 2002;
- (11) सा.का.नि. 431(अ), तारीख 14 जून, 2002;
- (12) सा.का.नि. 587(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003;
- (13) सा.का.नि. 286(अ), तारीख 13 मई, 2005;
- (14) सा.का.नि. 509(अ), तारीख 27 जुलाई, 2005;
- (15) सा.का.नि. 481(अ), तारीख 11 जुलाई, 2007;
- (16) सा.का.नि. 478(अ), तारीख 26 जून, 2008;
- (17) सा.का.नि. 611(अ), तारीख 26 अगस्त, 2008;
- (18) सा.का.नि. 882(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2010 ।

- (ii) under column (6), in the entries, the words “and Wage Slip” shall be omitted;
- (b) against serial number 2 relating to Joint Account,
 - (i) under column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:

“Wages under NREG Act, Government benefits and deposits under these rules”;
 - (ii) under column (6), in the entries, the words “and Wage Slip” shall be omitted.

[F.No. 2/6/2006-NS.II]

R. K. THAKAR, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2012

G.S.R. 926(E).— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Account Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Account (Amendment) Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Post Office Savings Account Rules, 1981, in rule 4A, in the Table, —
 - (a) against serial number 1 relating to Single Account,—
 - (i) under column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Wages under NREG Act, Government benefits and deposits under these rules”;

Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R. 663(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended *vide* number—

- (1) G.S.R. 8(E), dated the 2nd January, 1987;
- (2) G.S.R. 948 (E), dated the 2nd December, 1987;
- (3) G.S.R. 5(E), dated the 5th January, 1989;
- (4) G.S.R. 430(E), dated the 6th April, 1989;
- (5) G.S.R. 695(E), dated the 17th July, 1989;
- (6) G.S.R. 813(E), dated the 4th September, 1989;
- (7) G.S.R. 1001(E), dated the 8th November, 1989;
- (8) G.S.R. 499(E), dated the 8th July, 1993;
- (9) G.S.R. 165(E), dated the 28th February, 2000;
- (10) G.S.R. 349(E), dated the 10th May, 2002;
- (11) G.S.R. 431(E), dated the 14th June, 2002;
- (12) G.S.R. 587(E), dated the 25th July, 2003;
- (13) G.S.R. 286(E), dated the 13th May, 2005;
- (14) G.S.R. 509(E), dated the 27th July, 2005;
- (15) G.S.R. 481(E), dated the 11th July, 2007;
- (16) G.S.R. 478(E), dated the 26th June, 2008;
- (17) G.S.R. 611(E), dated the 26th August, 2008;
- (18) G.S.R. 882(E), dated the 3rd November, 2010.